



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1938 (श0)

(सं0 पटना 971) पटना, शुक्रवार, 11 नवम्बर 2016

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

11 नवम्बर 2016

एस0ओ0 287, दिनांक 11 नवम्बर 2016—बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम-XXXVI) की धारा-10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में निम्न संशोधन करते हैं जो उक्त धारा की अपेक्षानुसार पूर्व में गजट अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 271, दिनांक 07.10.2016 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है।

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधन

1. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 में संशोधन।—बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम-4 का उप-नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

“(1) जब नियम 3 के उप-नियम 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि आवेदक ने सभी अपेक्षित सूचनाएं सही-सही दी हैं, और आवेदन अन्यथा नियमानुकूल है तो वह आवेदक को पंजीकृत करेगा और प्रपत्र-II में निबंधन प्रमाण-पत्र, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, दे देगा।”

2. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में एक नये नियम 9ख का अंतःस्थापन।—बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के नियम-9क के बाद निम्नलिखित नियम 9ख जोड़ा जायेगा, यथा—

“9ख. नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वाणिज्य-कर आयुक्त, नियमावली द्वारा निर्दिष्ट विवरणी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से, दाखिल करने का आदेश, अधिसूचना द्वारा, दे सकेगा।”

3. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के अधीन विहित प्रपत्र-I में संशोधन।— बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 के अधीन विहित प्रपत्र-I की क्रम सं0 1 के बाद निम्नलिखित क्रम सं0 1क, 1ख एवं 1ग जोड़ी जायेगी, यथा—

“1क. पैन

1ख. मोबाईल संख्या

1ग. ई-मेल आई0डी0”

[सं0सं0 बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-4271]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

**11 नवम्बर 2016**

एस0ओ0 288, एस0ओ0 287, दिनांक 11 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं०सं० बिक्री-कर/संशोधन-03/2016-4272]  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त सह प्रधान सचिव।

*The 11<sup>th</sup> November 2016*

S.O. 287 dated the 11<sup>th</sup> November 2016—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act xxxvI of 1948), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 which has been previously published in the official gazette vide Notification No. 271 dated 07.10.2016 as required under the said section.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

**Amendment**

1. **Amendment in Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.**— Sub-Rule (1) of Rule 4 of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 shall be substituted by the following, namely—

"(1) When the appropriate authority referred to in sub-rule (2) of rule 3, after making such inquiry, as he considers necessary, is satisfied that the applicant has correctly given all the required information and that the application, is otherwise in order, he shall, register the applicant and grant him a certificate of registration in Form-II within thirty days from the date of receipt of the application."

2. **Insertion of a new rule 9B in the Bihar Electricity Duty Rules, 1949.**— After Rule 9A of the Bihar Electricity Duty Rules, 1949 the following new rule 9B shall be added, namely:—

"9B. Notwithstanding anything contained in the Rules, the Commissioner, Commercial Taxes, by notification, may issue an order to file return specified in the rules, through electronic device."

3. **Amendment in Form-I prescribed under the Bihar Electricity duty Rules, 1949 :-** After Sl. No. 1 in Form-I prescribed under the Bihar Electricity duty Rules, 1949 the following Sl. No. 1A, 1B and 1C shall be added, namely:—

- "1A. PAN
- 1B. Mobile No.
- 1C. E-mail I.D."

[F.No. Bikri-Kar/Sansodhan-03/2016-4271]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 971-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>